



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 390]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1978/श्रावण 28, 1900

No. 390]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1978/SRAVANA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1978

का० प्रा० 508 (अ).—केरल सरकार ने संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 11 में दिए गए निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में कतिपय प्रादेशिक खण्डों की संख्या और सीमाओं में कुछ परिवर्तन संसूचित किए हैं ;

और, निर्वाचन आयोग, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 को अव्यतन बनाने के लिए उस आदेश की अनुसूची 11 में दिए गए उन निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में संशोधन करना आवश्यक और समीचीन समझता है ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त आदेश में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है:—

उक्त अनुसूची के भाग ख में:—

- (1) 134—त्रिवेन्द्रम उत्तर में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “त्रिवेन्द्रम नगर निगम के खण्ड सं० 1 से 8 तक, खण्ड 10 के मकान सं० 137 से 2013 तक और खण्ड 18 के मकान सं० 1 से 314 तक ; और त्रिवेन्द्रम

तालुक में चेट्टीविलाकोम, काडाकामपल्ली, उल्लूर तथा वाट्टीयूरकावु पंचायतों।” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

- (2) 135—त्रिवेन्द्रम पश्चिम में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “त्रिवेन्द्रम नगर निगम के खण्ड सं० 12, 13, 27 से 37 तक, 41, 43 से 48 तक, खण्ड 26 के मकान सं० 1988 से 2133 तक और खण्ड 42 के मकान सं० 1 से 147 तक, 191 से 295 तक तथा 316 से 777 तक,” प्रविष्टि रखी जाएगी ; और

- (3) 136—त्रिवेन्द्रम पूर्व में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, “त्रिवेन्द्रम नगर निगम के खण्ड 9, 11, 14 से 17 तक, 19 से 25 तक, 38 से 40 तक, 49, 50 और खण्ड 10 के मकान सं० 1 से 136 तक, खण्ड 18 के मकान सं० 315 से 2342 तक, खण्ड 26 के मकान सं० 1 से 1987 तक और खण्ड 42 के मकान सं० 148 से 190 तक तथा 296 से 315 तक” प्रविष्टि रखी जाएगी।

आदेश से,

[सं० 282/1/केरल/78]

वी० नारायणमथ्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 1978

S.O. 508(E).—Whereas the Government of Kerala have intimated some alterations in the number and boundaries of

certain territorial divisions referred to in the description of constituencies given in Schedule XI of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 ;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of the extent of the constituencies in the Schedule XI of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, to bring the Order up-to-date ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows:—

I. In Part B, of the Schedule—

- (1) In 134-Trivandrum North, in the description of the extent of the constituency, **for** the existing entries, **substitute** the entries "Divisions 1 to 8, House Nos. 137 to 2013 of Division 10 and House Nos. 1 to 314 of Division 18 of Trivandrum Corporation; and Chettivilakom, Kadakampalli, Ulloor

and Vattiyoorkavu panchayats in Trivandrum taluk";

- (2) In 135-Trivandrum West, in the description of the extent of the constituency, **for** the existing entries, **substitute** the entries "Divisions 12, 13, 27 to 37, 41, 43 to 48, House Nos. 1988 to 2133 of Division 26 and House Nos. 1 to 147, 191 to 295 and 316 to 777 of Division 42 of Trivandrum Corporation"; and
- (3) In 136-Trivandrum East, in the description of the extent of the constituency, **for** the existing entries, **substitute** the entries "Divisions 9, 11, 14 to 17, 19 to 25, 38 to 40, 49, 50 and House Nos. 1 to 136 of Division 10, House Nos. 315 to 2342 of Division 18, House Nos. 1 to 1987 of Division 26 and House Nos. 148 to 190 and 296 to 315 of Division 42 of Trivandrum Corporation."

By Order,

[No. 282/1/KL/78]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.